

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

29 नवंबर 2018

जामिया मिल्लिया के छात्र को “ जश्र ए यंगिस्तान “ सम्मान

जामिया मिल्लिया इस्लामिया:जेएमआई: के छात्र मुहम्मद आमिर अली को देश के जाने माने हिन्दी न्यूज़ चैनल - न्यूज़24 ने “ जश्र ए यंगिस्तान 2 सम्मान “ से सम्मानित किया है।

जेएमआई के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्र आमिर को अमेरिका की फ्रिज़न मोटर वर्क्स ने हाल ही में बतौर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर अपने यहां 70 लाख रूपए सालाना वेतन पर नियुक्त किया है। जेएमआई के किसी डिप्लोमा इंजीनियर छात्र की अब तक की यह सबसे अधिक वेतन पर नियुक्ति है।

आमिर न्यूज़24 की ओर 24 नवंबर को आयोजित इस सम्मान समारोह में खुद शामिल नहीं हो पाए। उसकी ट्राफी और शाल को आयोजकों ने जेएमआई भेज दिया जिसे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ए. पी. सिद्दीकी ने आमिर को एक समारोह में आज सौंपा। इस मौके पर बड़ी तादाद में जेएमआई के अध्यापक, कर्मचारी और छात्र मौजूद थे।

जेएमआई को भेजे मेल में न्यूज़24 ने आमिर के बारे में कहा है, “ आप करोड़ों हिन्दुस्तानियों के लिए पेररक हैं और बीएजी नेटवर्क आपको सलाम करता है। युवा भारत, नए हिन्दुस्तान की बुनियाद डाल रहा है। एक ऐसे भारत की जिसका दुनिया भर में असर दिखाई दे। हमारे नौजवान दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, और यह वक्त है कि हम अपने युवाओं की कामयाबी का जश्र मनाएं। “

भारत के उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू इस सम्मान समारोह के सम्मानित मेहमान थे। समारोह में तापसी पन्नू, करीना कपूर, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन और ज़ायरा वसीम वगैरह भी मौजूद थे।

जेएमआई में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहे आमिर के पिता ने बताया कि उनके बेटे में शुरू से ही कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता था और पेचीदा सवालों के जवाब ढूंढता रहता है। स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद वह लगातार तीन सालों की कोशिशों के बावजूद जेएमआई के बी. टेक में दाखिला पाने में नाकाम रहा। उसने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया और इस दौरान उसने ‘ प्रि इलेक्ट्रिक कार’ परियोजना पर शिहत से काम करना शुरू किया। उसके इस काम की उद्योग जगत की ओर से काफी सराहना हुई। इसी बीच अमेरिकी कंपनी ने उसके गुरु को पहचानते हुए अपने यहां अच्छी नौकरी पर रख लिया।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक